



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 श्रावण 1932 (श0)  
(सं0 पटना 512) पटना, शुक्रवार, 23 जुलाई 2010

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ

आदेश

21 जुलाई 2010

सं0 सं. 7/नि. (विधि)—31/2003—4033—विभागीय आदेश/ज्ञापांक 3871, दिनांक 31 जुलाई 2009 द्वारा श्री कुमार शांत रक्षित, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा को परिसमापन कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु परिसमापनाधीन मधेपुरा—सुपौल केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., मधेपुरा का सहायक परिसमापक नियुक्त किया गया था, परन्तु सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 1744, दिनांक 26 अप्रैल 2010 द्वारा इनकी सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पर्यावरण एवं वन विभाग के आप्त सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सौंपे जाने के कारण परिसमापन कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु सहायक परिसमापक की नियुक्ति किया जाना आवश्यक है।

अतएव, मैं लियान कुंगा, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना, बिहार सहकारी समिति नियमावली 1959 के नियम 64 (2) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री दीनानाथ मिश्र, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा को परिसमापनाधीन मधेपुरा—सुपौल केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., मधेपुरा का सहायक परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाए।

आदेश से,  
लियान कुंगा,  
निबंधक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 512-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>